



Bhagiradha Chemicals & Industries Limited.

Plot No.3,
Sagar Society,
Road No.2, Banjara Hills,
Hyderabad - 500 034, Telangana, INDIA.
Tel : +91-40-42212323/42221212
Fax : +91-40-23540444
E-mail : info@bhagirad.com

Ref: BCIL/ SE/ 2022/ 21

Date: April 09, 2022

To,

Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001, Maharashtra

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Bandra Kurla Complex,
Bandra East,
Mumbai – 400 501, Maharashtra

Ref: Letter of Offer dated April 5, 2022 (Letter of Offer) filed by Bhagiradha Chemicals & Industries Limited (Company) for the proposed issue of up to 20,95,924 equity shares of face value ₹10 each (Issue Shares) for cash at a price of ₹400 per Equity Share (including a share premium of ₹390 per Equity Share) (Issue Price), aggregating up to ₹8,383.70 lakh by our Company (Issue). The Issue comprises: (a) an issue of up to 19,55,224 Equity Shares to the Eligible Equity Shareholders of our Company on rights basis (Rights Equity Shares) in the ratio of 4 Rights Equity Shares for every 17 fully paid-up Equity Shares held by the Eligible Equity Shareholders on the Record Date, that is on April 9, 2022 (Rights Issue); and (b) a reservation of up to 1,40,700 Equity Shares for the Eligible Employees of our Company (Employee Reservation Shares) aggregating up to ₹562.80 lakh (Employee Reservation Portion).

Sub: Submission of corrigendum advertisement in relation to the Letter of Offer.

Dear Sirs,

Further to the filing of our Letter of Offer dated April 5, 2022, we would like to bring to your attention that the ex-rights price disclosed in point no. 9 under chapter entitled 'Capital Structure' on page 49-50 of the Letter of the Offer has been inadvertently mentioned as "₹897.36 per Equity Share" and the same should be read as "₹900.66 per equity share".

Consequently, pursuant to the provisions of Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the e-clippings of the corrigendum advertisement published in connection with the Letter of Offer, in the following newspapers on April 9, 2022:

1. Financial Express – English National Daily (All Editions);
2. Jansatta – Hindi National Daily (All Editions); and
3. Nava Telangana (Hyderabad - Telugu) – Regional Language Daily.





Bhagiradha Chemicals & Industries Limited.

Plot No.3,
Sagar Society,
Road No.2, Banjara Hills,
Hyderabad - 500 034, Telangana, INDIA.
Tel : +91-40-42212323/42221212
Fax : +91-40-23540444
E-mail : info@bhagirad.com

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours truly,

For and behalf of **Bhagiradha Chemicals & Industries Limited**

Sharanya R
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: ACS - 63438



Working groups to review criteria for MF sponsors

FE BUREAU
Mumbai, April 8

SEBI ON FRIDAY announced formation of two working groups to review the role and eligibility of a sponsor of a mutual fund. The first group will look at an alternative set of eligibility requirements to enable new players, who otherwise may not have been eligible, to act as sponsors. The other group will look at streamlining the role and obligations of trustees of mutual funds.

Sebi said expansion and reviewing the current eligibility requirements for sponsors to mutual fund is necessary amid the changing dynamics of the mutual fund industry. Following which, the regulator has formed a working group under the chairmanship of A Balasubramanian, MD & CEO,



Aditya Birla Sun Life AMC, and chairman of Amfi (Association of Mutual Funds in India).

The working group will further recommend to the regulator an alternative set of eligibility criteria for entities to act as sponsor, review the existing eligibility requirements for being a sponsor and recommend mechanisms for addressing conflict of interest that may arise if pooled investment vehicles/private equity act as sponsor. Additionally, it will also examine the need for sponsor to dilute its stake in asset management company (AMC) from the existing requirement of holding at least 40% of the net worth.

"This is expected to not only foster competition in the mutual fund industry, but also facilitate consolidation in the industry through mergers and acquisitions so as to reap economies of scale and scope. This is also expected to facilitate fresh flow of capital into the industry and to foster innovation," said the regulator on Friday.

HDFC sells around 3% stake in Bandhan Bank

FE BUREAU
Kolkata, April 8

HDFC LTD ON Friday sold around 49.6 million shares or around a 3% stake in private sector lender Bandhan Bank in a bulk deal to bring its shareholding to just below 5% to comply with regulatory guidelines. Bandhan Bank, in a stock exchange filing on the BSE, informed that HDFC sold 49.6 million shares at ₹306.61 apiece. At the end of the third quarter of the previous fiscal, HDFC's stake in the lender stood at 9.89%.

According to market sources, HDFC had sold around 1.5% stake sometime back, and after Friday's bulk deal, its shareholding in the bank comes down to just below 5%. "This share sale is basically to comply with RBI's guidelines," sources said.

HDFC had to pare its stake in Bandhan Bank to below 5% due to the proposed merger with HDFC Bank.

On April 4, HDFC Bank and HDFC announced that they had entered into a definitive agreement whereby the business of HDFC will be merged into HDFC Bank in an all-stock transaction.

RailTel
(A Government of India Undertaking)
CIN No. L64202DL2000GOI107905
e-Tender No.: RCIL/ER/2022-23/1362, Dated: 06.04.2022
RailTel Region invites e-tenders from eligible bidders for the work of "Replacement of patches of OFC by supply and laying of PLB HDPE Duct and armoured OFC including all protective materials and commissioning of the links by integrating with the existing OFC of Guwahati Territory".
Tender Notice & Tender Document are available on www.railtelindia.com and <https://www.reps.gov.in>. All future Addendum/clarification etc. will be uploaded on RailTel website and IREPS Portal only.

PNB opens international banking unit at GIFT City

PUNJAB NATIONAL BANK (PNB) on Friday said it has opened its international banking unit at GIFT City in Gujarat. PNB's IFSC banking unit at

GIFT City, Gandhinagar, was inaugurated by MD and CEO Atul Kumar Goel, the bank said. The branch will cater to the customers' needs outside

the domestic economy's jurisdiction, dealing with flows of finance, financial products and services across borders, PNB said.

—PTI

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

NOTICE

Notice is hereby given that the following 'RECORD DATE(S)' have been fixed for reckoning the Bondholders for holdings in dematerialized mode entitled to receive interest for the under mentioned series of Bonds issued by the company.

S. No	Series Code/Description/ISIN No(s)	Interest Pay Date(s)	Record Date(s)
1.	9.30%- Secured - Redeemable - Non -Convertible - (Taxable) bonds XXXIII-Issue I - AT-V Series INE114A07828	25.05.2022	29.04.2022
2.	9.30%- Secured - Redeemable - Non-Convertible - (Taxable) bonds XXXIII-Issue I - AT-S Series INE114A07778	25.05.2022	29.04.2022

All concerned are advised to send change of address, bank particulars, mandates, ECS mandates, PAN etc. in respect of the bonds held in electronic form to the respective Depository Participants. Bondholders whose names appear as Beneficial Owners as on respective 'Record Date(s)', as per the list to be furnished by the Depositories would be entitled to receive interest payment. The aforesaid payment of interest shall be subject to deduction of Income Tax at source as per provisions of the Income Tax Act, 1961. Bondholders eligible for exemption from Tax deduction at source, are, therefore, advised to submit exemption certificates and/or any other documents issued by the Income Tax Authorities at registered office of the Company on or before the respective 'Record Date(s)' as mentioned above.

Place: New Delhi
Dated: 04.04.2022

Sd/-
(M B Balakrishnan)
Company Secretary

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi-110003.

IDBI Asset Management Limited

CIN: U65100MH2010PLC199319

Registered Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005
Corporate Office: 4th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005
Tel: (022) 66442800 Fax: (022) 66442801 Website: www.idbimutual.co.in E-mail: contactus@idbimutual.co.in

Notice No. 01/2022-23

HOSTING OF HALF YEARLY PORTFOLIO STATEMENT OF SCHEMES OF IDBI MUTUAL FUND

Notice is hereby given to all investor(s)/Unit holder(s) of IDBI Mutual Fund that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the Half Yearly Portfolio Statement of the Schemes of IDBI Mutual Fund for the half year ended March 31, 2022 has been hosted on our website viz. www.idbimutual.co.in and also on AMFI website viz. www.amfiindia.com respectively. Investors can submit request for physical or electronic copy of the Half Yearly Portfolio Statement through any of the following means:

- Telephone: Give a call at our Contact Centre at 1800 419 4324
- Email: Send an email to contactus@idbimutual.co.in
- Letter: Submit a letter to any of the AMC Offices or KFinTech Investor Service Centres; (list available at www.idbimutual.co.in)

For IDBI Asset Management Limited
(Investment Manager to IDBI Mutual Fund)
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date : April 08, 2022

Statutory Details: IDBI Mutual Fund has been set up as a trust sponsored by IDBI Bank Limited with IDBI MF Trustee Company Limited as the Trustee (Trustee under the Indian Trusts Act, 1882) and with IDBI Asset Management Limited as the Investment Manager.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 5, 2022

This corrigendum (Corrigendum) is with reference to the Letter of Offer dated April 5, 2022 filed with the BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) and together with BSE, Stock Exchanges) and submitted to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe or sell either entitlements or securities.

BHAGIRADHA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

Our Company was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 1956 at Hyderabad with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh (RoC) on July 7, 1993. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page 43 of the Letter of Offer.

Registered Office: 8-2-269/S/3/A, Plot No. 3, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Telangana, India

Contact Person: R Sharanya; Tel: +91 40 4222 1212; Facsimile: +91 40 2354 0444;
E-mail: info@bhagirad.com; **Website:** www.bhagirad.com; **CIN:** L24219TG1993PLC015963

OUR PROMOTERS: SINGAVARAPU CHANDRASEKHAR, EADARA JAYALAXMI, DODDA SADASIVUDU AND SINGAVARAPU LALITHA SREE

ISSUE OF UP TO 20,95,924 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹10 EACH (ISSUE SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹400 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹390 PER EQUITY SHARE) (ISSUE PRICE), AGGREGATING UP TO ₹8,383.70 LAKH BY OUR COMPANY. THE ISSUE COMPRISES: (A) AN ISSUE OF UP TO 19,55,224 ISSUE SHARES TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON RIGHTS BASIS (RIGHTS EQUITY SHARES) IN THE RATIO OF 4 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 17 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 9, 2022 (RIGHTS ISSUE); AND (B) A RESERVATION OF UP TO 1,40,700 ISSUE SHARES FOR THE ELIGIBLE EMPLOYEES OF OUR COMPANY (EMPLOYEE RESERVATION SHARES) AGGREGATING UP TO ₹562.80 LAKH (EMPLOYEE RESERVATION PORTION). THE RIGHTS ISSUE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AND ISSUE OF EMPLOYEE RESERVATION SHARES, IS COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE ISSUE. THE ISSUE PRICE IS 40 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE ENTIRE ISSUE PRICE FOR THE EQUITY SHARES IS PAYABLE ON APPLICATION. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER ENTITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 199 OF THE LETTER OF OFFER.

The Eligible Equity Shareholders and the Eligible Employees are requested to please note that the ex-rights price disclosed in point no. 9 under chapter entitled 'Capital Structure' on page 49-50 of the Letter of Offer has been inadvertently mentioned as "₹897.36 per Equity Share" and should be read as "₹900.66 per Equity Share".

The Letter of Offer and all issue related materials should be read in conjunction with this Corrigendum. The information in this Corrigendum supersedes the information in the Letter of Offer and all issue related materials to the extent inconsistent therein.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
Emkay Your success is our success EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 7 th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028, Maharashtra, India Tel: +91 22 66121212 Email: bcil.rights@emkayglobal.com Investor Grievance e-mail: ibg@emkayglobal.com Website: www.emkayglobal.com Contact Person: Deepak Yadav / Pranav Nagar SEBI Registration No.: INM000011229	LINK Intime LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6000 Email: bhagiradha.rights@linkintime.co.in Investor Grievance Email: bhagiradha.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Sumet Deshpande SEBI Registration No.: INR000004058

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

On behalf of the Board of Directors of
Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
Sd/-
R Sharanya
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on right basis to Eligible Equity Shareholders and reserve portion of Equity Shares for Eligible Employees and has filed a Letter of Offer with the Stock Exchanges and submitted to SEBI. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, the website of the Lead Manager at www.emkayglobal.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer the Letter of Offer including the section entitled 'Risk Factors' beginning on page 21 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Issue Shares or Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Issue Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

PRESSMAN

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF ROHIT FERRO-TECH LIMITED

CIN: L27104WB2000PLC091629
Corporate office- 132A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata- 700026, West Bengal, India.
Email ID: cs@rohitferrotech.com Website: www.rohitferrotech.com

PUBLIC NOTICE

The Public Announcement (the "PA" or the "Public Announcement") is hereby issued to the shareholders of Rohit Ferro-Tech Limited (the "Company" or "RFTL") pursuant to the Resolution Plan approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench ("Approved Resolution Plan") in compliance with Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as amended from time to time, to state that the Equity Shares of the Company will stand delisted from both National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited (the "Stock Exchanges") with effect from April 7, 2022.

BACKGROUND OF DELISTING

Rohit Ferro-Tech Limited is a public listed company incorporated under the Companies Act, 1956. The equity shares of RFTL are currently listed on the Stock Exchanges. The subscribed and fully paid-up share capital of RFTL as on March 31, 2022 comprises of 11,37,76,123 equity shares of Rs. 10/- each aggregating Rs. 1,13,77,61,230/-.

The Company is making this Public Announcement to the shareholders of RFTL for the purpose of delisting of the equity shares in accordance with the Approved Resolution Plan, the applicable provisions of the SEBI (Delisting of Equity Share) Regulations, 2021 as amended from time to time (the "Delisting Regulations"). Consequently to the Delisting of the equity shares, the Company shall be delisted from the Stock Exchanges.

BACKGROUND OF THE RESOLUTION APPLICANT

The Resolution Applicant, Tata Steel Mining Limited ("TSMIL"), formerly known as TS Alloys Limited, a public unlisted company, is a wholly owned subsidiary of Tata Steel Limited ("TSL"), and as a part of the corporate level restructuring and consolidation plan for TSL's diversified portfolio of group companies, TSMIL has been identified to be the company to hold the mining cluster. TSMIL was incorporated in 2004 as Rawmet Ferrous Industries Ltd. Tata Steel acquired the entire equity of Rawmet in 2007, and thus TS Alloys becomes a 100% subsidiary of Tata Steel. Subsequently the name was changed to TSMIL from May 19, 2020. TS Alloys was created to manufacture Ferro Chrome, Ferro Manganese & Ferro Silicon etc. Its Ferro Alloys facility situated at Anantapur, Atharaghat, District Outback can produce both Chrome and Manganese Alloys. It has production capacity of 59,400 MT of Ferro Chrome. Presently, the plant has two 16.5 submerged electric arc furnaces and a 1,00,000 TPA capacity Briquetting Plant. The Company participated in mineral lease-auction conducted by government of Odisha and have won three Chromite blocks viz. Sukinda Chromite Block, Sarubil Chromite Block and Kamarda Chromite Block in the Jajpur District, Odisha. Along with manufacture of Ferro Alloys, company also pursued the commercial mining business in Chrome minerals. TSMIL serves customers of Ferro Chrome in the domestic and international markets.

EFFECT OF DELISTING

As per the provisions of the Approved Resolution Plan which under Section 31 of the Code is binding on all the stakeholders, the total equity share capital of RFTL are proposed to be delisted from the Stock Exchanges. The Resolution Applicant, in furtherance of the Approved Resolution Plan, shall not be paying any consideration to the shareholders towards the delisting of the Equity Shares. As the Liquidation Value of the Company is not sufficient to cover debt of the Secured Financial Creditors of the Company in full, therefore, the Liquidation Value owed to the equity shareholders of the Company is NIL and therefore, they will not be entitled to receive any payment; and hence no offer will be made to any shareholder of the Company, towards the delisting of the equity shares. The equity shareholders of the Company are not entitled to surrender their equity shares to the Resolution Applicant, pursuant to the Delisting. Post the delisting of the equity shares as mentioned above, the Company will become an unlisted public company.

For, M/s Rohit Ferro-Tech Limited
Sd/-
Anil Prasad Shaw
Company Secretary

Date: 8th April, 2022
Place: Kolkata

Reliance Industries Limited
CIN: L1100MH1973PLC019786

Regd. office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Phone: 022-3555 3000. Email: investor.relations@ril.com
CIN: L1100MH1973PLC019786

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue of duplicate certificate(s).

Sr. No.	Folio No.	Name / Joint Names	Shares	Certificate Nos. From - To	Distinctive Nos. From - To
1	83079258 29532931	Anil Sunderlal Chandra Balaram Vangapandu	100	66748934-934 8754227-228 7075748-748 10531681-681	6883619 1375-474 58293839-878 143721640-649 188391085-094
3	3331920	Bharti Vinod Thakur	60	62521622-622 1004183-183	2212016622-681 25220677-690
4	55841004	Bharti Vinod Thakur Vinod Karunashanker Thakur	48 80	62342759-759 62342852-852	2195813851-898 219582087-766
5	31873339	Dattur Kisan Mate H Kisan Plate	328	66729092-092	6882117187-514
6	113595364	Dineshchandra Agarwal	45	58074525-525 62350493-493	1610818041-085 2196407033-077
7	47780624	Gandhi Rajendra Bharat Gurmeek Singh	200	66730262-262 16458050-051	6882220878-077 409305005-034
8	74489389	Gurmeek Singh	30	54424134-135 62270051-051	1288530653-682 2190203940-999
9	103590909	H Shiva Murthy	27	58159356-356 62541880-880	161327791-939 221369908-834
10	21004928	Kallepalli Geetha Patnalk	300	66789563-563	688606220-273
11	84859222	Kanika Jhamb	30	52883262-263 59662380-381	1241075320-349 467281435-464
12	69299997	Kishor Nevrekar Vinod Baburao Nevrekar	60 25	669341127-127 16621299-299	690283678-637 465831570-594
13	80163037	Latifun Nissa	100	66488025-825 62041824-824	6873610228-327 2182754874-893
14	23354110	Madhu Bala Soni	40	66693282-282 7216901-901	6878742067-106 144917579-579
15	88619731	Malikarajun Chanabasappa Marhal Mayur N Thacker Narendra Kumar M Thacker	1 25 27	12389553-553 1646657-657 66528251-251	25585305-305 466481295-319 686304801-827
16	28930577	Nageswari Odhavadas Mulchand Bhatia Raj B Godwari	20 40 120	59254895-895 66820016-016 66878375-375	1930972089-108 6889395351-390 689419446-565
17	54025866	Nageswari Odhavadas Mulchand Bhatia Raj B Godwari	80	62565724-724	2215528008-087
18	60145177	Nageswari Odhavadas Mulchand Bhatia Raj B Godwari	14 14 28	12878615-615 50123688-688 62409879-879	258842997-010 1155592299-312 2202769097-124
19	74492029	Pankaj Kumar	56	66659177-177 16163333-333	6875074610-665 403651000-029
20	108759243	Pankaj Kumar	30	52928356-357 59137542-542	1241751730-759 1597401365-382
21	108436908	Pradhyana Prabhakar Deepojari	18 45 45	61865794-794 58122438-438 62489467-467	2180748492-509 2209867490-534 2209867490-534
22	69995861	Rekha Sharma	90 100	66750617-617 62252287-287	6883830840-929 2188913644-693
23	126581427	S K Ohab Ali	18	62187207-207	2184592353-370
24	82731555	S S Radhika	36 88	67076900-900 53736767-769	690967695-730 125902079-166
25	56287922	Shyam Sunder Bansal Shashi Bansal	11 27	59133421-421 59133421-421	84915952-962 136895325-351
26	31216541	Suman Sardana	5 11 14	59133422-422 59133422-422 59133422-422	18196215-219 26750599-609 44489885-898
27	69405142	Tushar Karati Chakraborty	5 25 25	59133422-422 51082757-757 62596364-364	50179878-882 84915937-951 2217909611-660
28	35408762	Vanita Vij	8 16 32	7630399-399 50628985-985 61820022-022	148212535-542 1161122746-753 2180188654-669
29	5144752	Vinod Karunashanker Thakur	14 48	66411773-773 62342764-764	4853674240-271 2195814485-532
Total			3422		

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. Any person(s) who has / have any claim in regard of the securities, should lodge such claim with the Company's Registrars and Transfer Agents viz. "KFin Technologies Limited", Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, within Seven (7) days from the date of publication of this notice, failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confirmation in lieu of duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

for Reliance Industries Limited
Sd/-
Savithri Parekh
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : April 8, 2022

www.ril.com

FOR INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

	Nayak Infrastructure Private Limited
1. Name of the corporate debtor	Nayak Infrastructure Private Limited
2. Date of Incorporation of Corporate Debtor	19-December-2007
3. Authority under which Corporate Debtor is Incorporated / registered	RoC - Shillong
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74210AS2007PTC008539
5. Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor	Regd. Office: Swarupnandan Road Lumding, Dist. Nagaon, Luming, Assam-782447, India Principal Office: 2nd Floor, Kamakhya Commercial, C.K.Road, Panbazar Guwahati 781001 Assam, India
6. Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	26-August-2021
7. Date of invitation of expression of interest	09-April-2022 (Extended - 1) 23-November-2021 (Original Issue)
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Sending a request by email at corp.nayakinfra@resolvetgroup.co.in
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Sending a request by email at corp.nayakinfra@resolvetgroup.co.in
10. Last date for receipt of expression of interest	29-April-2022 (Extended - 1) 10-December-2021 (Original Issue)
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	09-May-2022 (Extended - 1) 20-December-2021 (Original Issue)
12. Last date for submission of objections to provisional list	14-May-2022 (Extended - 1) 25-December-2021 (Original Issue)
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	24-May-2022 (Extended - 1) 04-January-2022 (Original Issue)
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	14-May-2022 (Extended - 1) 25-December-2021 (Original Issue)
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum ("IM") and further information	Sending a request by email at corp.nayakinfra@resolvetgroup.co.in
16. Last date for submission of resolution plans	13-June-2022 (Extended - 1) 31-January-2022 (Original Issue)
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	As will be stated in the Request for Resolution Plan.
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	After approval of Resolution Plan by COC
19. Name and registration number of the resolution professional	Vishal Ghisulal Jain Reg. No. IBBI/PA-001/PP-P00419 /2017-1810742
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Vishal Ghisulal Jain D-1902, Palm Beach Residency, Amary CHS Ltd., Plot No.24-29, Sector-4, Nehru West, Navi Mumbai- 400706 vishal@vishalghisulal.com
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Resolve-PE Private, Limited, Office No. 1003, 10th Floor, Satra Plaza, Sector 19D, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, Maharashtra, India corp.nayakinfra@resolvetgroup.co.in
22. Further Details are available at or with	Resolution Professional
23. Date of publication of Form G	09-April-2022

SD/-
Vishal Ghisulal Jain
Resolution Professional in the matter of Nayak Infrastructure Private Limited
IBBI Registration No: IBBI/PA-001/PP-P00419 /2017-1810742
IBBI Regd. Address: D-1902, Palm Beach Residency, Amary CH

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER DATED APRIL 5, 2022

This corrigendum (**Corrigendum**) is with reference to the Letter of Offer dated April 5, 2022 filed with the BSE Limited (**BSE**) and National Stock Exchange of India Limited (**NSE** and together with **BSE**, **Stock Exchanges**) and submitted to the Securities and Exchange Board of India (**SEBI**) and is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe or sell either entitlements or securities.



BHAGIRADHA CHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

Our Company was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 1956 at Hyderabad with a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh (**RoC**) on July 7, 1993. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page 43 of the Letter of Offer.

Registered Office: 8-2-269/S/3/A, Plot No. 3, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad – 500034, Telangana, India

Contact Person: R Sharanya; **Tel:** +91 40 4222 1212; **Facsimile:** +91 40 2354 0444; **E-mail:** info@bhagiradha.com; **Website:** www.bhagiradha.com; **CIN:** L24219TG1993PLC015963

OUR PROMOTERS: SINGAVARAPU CHANDRASEKHAR, EADARA JAYALAXMI, DODDA SADASIVUDU AND SINGAVARAPU LALITHA SREE

ISSUE OF UP TO 20,95,924 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹10 EACH (ISSUE SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹400 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹390 PER EQUITY SHARE) (ISSUE PRICE), AGGREGATING UP TO ₹8,383.70 LAKH BY OUR COMPANY. THE ISSUE COMPRISES: (A) AN ISSUE OF UP TO 19,55,224 ISSUE SHARES TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON RIGHTS BASIS (RIGHTS EQUITY SHARES) IN THE RATIO OF 4 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 17 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 9, 2022 (RIGHTS ISSUE); AND (B) A RESERVATION OF UP TO 1,40,700 ISSUE SHARES FOR THE ELIGIBLE EMPLOYEES OF OUR COMPANY (EMPLOYEE RESERVATION SHARES) AGGREGATING UP TO ₹562.80 LAKH (EMPLOYEE RESERVATION PORTION). THE RIGHTS ISSUE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AND ISSUE OF EMPLOYEE RESERVATION SHARES, IS COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE ISSUE. THE ISSUE PRICE IS 40 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE ENTIRE ISSUE PRICE FOR THE EQUITY SHARES IS PAYABLE ON APPLICATION. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER ENTITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 199 OF THE LETTER OF OFFER.

The Eligible Equity Shareholders and the Eligible Employees are requested to please note that the ex-rights price disclosed in point no. 9 under chapter entitled 'Capital Structure' on page 49-50 of the Letter of Offer has been inadvertently mentioned as "₹897.36 per Equity Share" and should be read as "₹900.66 per Equity Share".

The Letter of Offer and all Issue related materials should be read in conjunction with this Corrigendum. The information in this Corrigendum supersedes the information in the Letter of Offer and all Issue related materials to the extent inconsistent therein.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <p>EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 7th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028, Maharashtra, India Tel: +91 22 66121212 Email: bcl.rights@emkayglobal.com Investor Grievance e-mail: ibg@emkayglobal.com Website: www.emkayglobal.com Contact Person: Deepak Yadav / Pranav Nagar SEBI Registration No.: INM0000011229</p>	<p>LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 22 4918 6000 Email: bhagiradha.rights@linkintime.co.in Investor Grievance e-mail: bhagiradha.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Sumeet Deshpande SEBI Registration No.: INR000004058</p>

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

On behalf of the Board of Directors of
Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
sd/-
R Sharanya
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on right basis to Eligible Equity Shareholders and reserve portion of Equity Shares for Eligible Employees and has filed a Letter of Offer with the Stock Exchanges and submitted to SEBI. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, the website of the Lead Manager at www.emkayglobal.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer the Letter of Offer including the section entitled 'Risk Factors' beginning on page 21 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Issue Shares or Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Issue Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.


JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
 Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004
 No. : JDA/EE-HQ/2022/D-645 **CORRIGENDUM** Dated : 08.04.2022
 The last date for the bid submission on e-procurement portal of Tender Notice No. EE-(HQ)/16/2021-22 dated 25.02.2022 for the work "Detailed Design, Content Development, Exhibit Construction, Testing and Commissioning of Gandhi Darshan Museum at Central Park, Jaipur" is now amended as 15.04.2022 up to 6.00 PM. Remaining condition will be the same. For detailed clarification / amendments please refer JDA's website www.jda.urban.rajjasthan.gov.in and www.eproc.rajjasthan.gov.in.
 UBN No. JDA2122WLOB00590
 Raj. Samwad/C/416/2022-23 **Executive Engineer (HQ)**

नागरिक प्रक्रिया सहिता, 1908 क आदेश न नियम 20 क साथ पाठन एनसीएलटी नियमावली, 2016 के नियम 38 के अंतर्गत ख्यानापन सेवा के द्वारा सूचना राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ में श्री जगदीश सिंह बन्नीम में, ईएचएल हेल्थकेयर प्रा.लि. आई.ए. नं. 143/22, सी.पी. (आईबी)-284/सीएचडी/हरि./2019 के मामले में सेवा में, जगदीश सिंह बन्नीम के, जेके विकास केंद्र एंड सर्विकल हाउस का प्रांरार्शिएस प्रतिष्ठान है (ऑपरेशनल क्रेडिटर) 27, सुपर बाजार, सिविल अस्पताल के सामने, गुडगाँव-122002, हरियाणा जैसा कि श्री संयम गोयल, ईएचएल हेल्थकेयर प्रा.लि. (सीआईआईपी के अधीन) के अंतर्गत प्रस्ताव कमी हैं, ने आईसीसी, 2016 की धारा 60(5) के साथ पठित एनसीएलटी नियमावली, 2016 के नियम 11 के अंतर्गत सी.पी. (आईबी)-284/सीएचडी/हरि./2019 में आई.ए. नं. 143/22 दखिल किया है तथा जैसा कि माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ ने उक्त नामित ऑपरेशनल क्रेडिटर को सूचना जारी किया था कि, आदेश तिथि 10.03.2022 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी ने आप संबंधीय व्यक्ति को ख्यानापन सेवा के माध्यम से अप्रोहनाबरी को सर्व करने की अनुमति दी है। ध्यान रहे कि अब ऊपर शीर्षकित मामला माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष 27.4.2022 को सुचीबद्ध की जाएगी। आप व्यक्तिगत अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। ध्यान रहे कि उक्त विधि को आपकी उपस्थिति में चुक करने पर आवेदन को सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

श्याम गोयल
IBBI रजि. सं.: IBBI/PA-002/IP-N00138/2017-18/10397
अंतरिम प्रस्ताव कमी
ईएचएल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआईपी के अधीन)

क्र. सं.	बाण्ड विवरण	रिडिमेशन भुगतान की तारीख	रिकार्ड तारीख
1.	9.30% (कर योग्य) सिक्कोई रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल बाण्ड्स XXXIII इश्यू-I सीरीज (सीरीज एटी -V) आईएनई 114ए07828	25.05.2022	29.04.2022
2.	9.30% (कर योग्य) सिक्कोई रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल बाण्ड्स XXXIII इश्यू-I सीरीज (सीरीज एटी-5) आईएनई 114ए07778	25.05.2022	29.04.2022

सभी बाण्डधारक, जिनके पास बाण्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पते, बैंक ब्यौरे, अधिदेश, ई सी एस अधिदेश, पीएएफ (पैन) आदि में परिवर्तन से संबंधित अनुरोध / ब्यौरे को संबंधित डिपोजिटरी भागीदार को भेज दें। रिकार्ड तिथि पर जिन बंध पत्र धारकों के नाम डिपोजिटरी द्वारा भेजी गई सूची में हिताधिकारी स्वामी के रूप में शामिल कर लिया जाता है वे ही संबंधित रिडिमेशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। कृपया नोट करें कि इन बाण्डों पर विमोचन की तिथि से गना बंद हो जाएगा।

हस्ता/-
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कम्पनी सचिव
पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है 'सेल'


स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
 (भारत सरकार का उपक्रम)
रिडिमेशन एवं रिकार्ड तिथि के लिए सूचना
 एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी किये गये बंधपत्रों की निम्नलिखित श्रृंखला हेतु रिडिमेशन प्राप्त करने के हकदार बंधपत्र धारकों के लिए निम्नांकित 'रिकार्ड तारीख (खो)' का निर्धारण किया गया है: --

क्र. सं.	बाण्ड विवरण	व्याज भुगतान की तारीख	रिकार्ड तारीख
1.	9.30% (कर योग्य) सिक्कोई रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल बाण्ड्स XXXIII इश्यू-I सीरीज (सीरीज एटी V) आईएनई 114ए07828	25.05.2022	29.04.2022
2.	9.30% (कर योग्य) सिक्कोई रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल बाण्ड्स XXXIII इश्यू-I सीरीज (सीरीज एटी-5) आईएनई 114ए07778	25.05.2022	29.04.2022

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित बंधपत्रों के मामले में बंधपत्रधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे बंधपत्र अंतरण, पते, बैंक ब्यौरे, ईसीएस अधिदेश, बैंक के आईएफएससी कोड, पैन (PAN) आदि में परिवर्तन से संबंधित अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी भागीदार को भेज दें। जिन बंधपत्रधारकों के नाम इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित बंधपत्रों के मामले में डिपोजिटरी द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार रिकार्ड तारीख तक हिताधिकारी स्वामी के रूप में रिकार्ड तारीख तक कंपनी के बंधपत्र रजिस्टर में बंधपत्रधारक के रूप में शामिल कर लिया जाता है वे ही संबंधित व्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे। व्याज का उपर्युक्त भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार खोल पर आयकर की कटौती के अध्याधीन होगा। कर कटौती में छूट के पात्र बंधपत्रधारकों को छूट प्रमाण-पत्र और/अथवा आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण-पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरिलिखित रिकार्ड तारीख तक या उससे पहले जमा करा देने को सलाह दी जाती है।

हस्ता/-
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कम्पनी सचिव
पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी करने की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एम)-48 के अंतर्गत डा. अम्वेदकर नगर क्षेत्र (एसी-48) में डी-ब्लॉक खानपुर जे.जे. कालोनी में 100 एमएम डाया डी.आई. वाटर लाइन द्वारा पुराने/क्षतिग्रस्त 100 एमएम से ए-269 वाटर लाइन का विस्थापन।	2719505/-	2022_DJB_2203_03_1 07.04.2022	21.04.2022 के 3.00 बजे अप. तक
2.	ईई (एम)-52 के अंतर्गत तुलकाबाद कस्टडीएनसी में लक्ष्मी स्टीन लाल कुआं से ए-269 लाल कुआं तक पुराने क्षतिग्रस्त वाटर लाइन का विस्थापन।	4782527/-	2022_DJB_2203_03_2 07.04.2022	21.04.2022 के 3.00 बजे अप. तक
3.	ईई (एम)-52 के अंतर्गत तुलकाबाद कस्टडीएनसी में पकित-13, कालकाजी एक्सटेंशन में 300 एमएम डाया द्वारा 250 एमएम डाया पुराने तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइन का विस्थापन।	3346198/-	2022_DJB_2203_03_3 07.04.2022	21.04.2022 के 3.00 बजे अप. तक
4.	ईई (एम)-52 के अंतर्गत तुलकाबाद कस्टडीएनसी में पकित-12, कालकाजी एक्सटेंशन में 300 एमएम डाया द्वारा 250 एमएम डाया पुराने तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइन का विस्थापन।	4383941/-	2022_DJB_2203_03_4 07.04.2022	21.04.2022 के 3.00 बजे अप. तक
5.	ईई (एम)-54 के अंतर्गत एनसीएस मधुपुर रोड सिरता विहार के निकट नाला पर 700 एमएम डाया वर्धमान वाटर लाइन के स्पॉट के लिये डूब का फैब्रिकेशन एवं फिटिंग्स।	2560736/-	2022_DJB_2203_03_5 07.04.2022	21.04.2022 के 3.00 बजे अप. तक

ईई सर्वे में अधिक विवरण वेबसाइट <https://govtprocurement.delhi.gov.in> पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एच.सी. 21 (2022-23)

हस्ता/-
(एस.के.एम.)
कार्यपालक अभियंता (टी) एम-11

- “प्रवृत्ति सं. सुआसी-2”
- अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी)] तथा कम्पनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार तल में।
- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा 2 के अनुसार तल में कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास इन सूचना के इच्छनीय दिनों के बाद किन्हीं तीन दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आचार का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि एकलविक्रम आईटी प्राइवेट लिमिटेड, व्यवसायिक प्रोडक्शन को सेक्टर द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड से रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाए।
 - कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - सभी प्रकार के अनुप्रयोगों, प्रोग्रामों, सॉफ्टवेयर पैकेज, इंटरनेट, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मोबाइल एप्लिकेशन वेब एप्लिकेशन, ग्राफिकल, पॉर्टल, मार्केटिंग, सर्विसेस वेब डिजाइन तथा इंटरनेट यूटिलिटी तथा अन्य संबंधित सेवाओं/उत्पादों से जुड़ी सेवाओं का प्रवाधान, आपात, निर्माण, वितरण, कस्टोमिजेशन, विकास का व्यवसाय करना।
 - भारत अथवा/अन्य प्रकाश प्रकाश की इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एवं सॉफ्टवेयर उत्पादों, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अथवा उत्पत्ती सहायक सेवाओं, कम्प्यूटेशनल एवं परामर्शों/अन्य संबंधित उत्पादों का निर्माण, डिजाइन, वितरण, सर्विसेस, सर्विसेस, कंसल्टिंग, रीसर्च, मरम्मत, परिवर्तन, सहायक, रजि. ब्यौरे, फ्री, फुल्लि, निर्यात, आयात अंतरण अथवा विनिर्माण का व्यवसाय करना।
 - सॉफ्टवेयर सेंट्रल/प्रोडक्शन केन्द्रों, सॉल्यूशन, आर एंड डी, आईटी कंसल्टिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, वेबसेमिनार सेवाओं, कन्टेन्ट एवं डेटा सर्विसेस, प्रकाशन सेवा सेवाओं, टेक्नोलॉजी, प्रसिद्धि आदि सॉफ्टवेयर/प्रोडक्शन, बैंक असाइन प्रवाधान, सूचना सेवाओं का रखरखाव तथा उपकरण सेवाओं तथा व्यवसायों के कंसल्टेंट के रूप में कार्य करने सहित सूचना प्रौद्योगिकी सहज अथवा की ख्याना एवं/अथवा प्रवर्तन सर्विसेस/परामर्श सेवाओं का व्यवसाय करना।
 - भारत में अथवा अन्य इंटरनेट विषय, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, सेवाओं अथवा सेवाओं, इंटरनेट उत्पादों एप्लिकेशनों, वेब मॉड्यूलिंग आदि हबिटी पाठों के सहयोग या उसके बिना उक्त से संबंधित सेवाओं में सहायता का कार्य करना।
 - प्रस्तावित कम्पनी के द्वारा मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रति ए.41, 27A तल, एनसीएलटी पार्ट II, नई दिल्ली, डीएल 110049 आईएन में कालान्तर में देखी जा सकती है।
 - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इच्छनीय दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉपीराइट कार्यालय (आईआरसी), प्लेट नं. 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएनटी मानेसर बिल्डिंग गुडगाँव, (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।
- आज, दिनांक 9 अप्रैल, 2022 को
हस्ता/-
आवेदकों का नाम
1. अनुपम बाजराज
2. जगदीश सिंह बाजराज

SBI		भारतीय स्टेट बैंक		नवागुस्त आरिस्ट रिकवरी शाखा-I, स्टेट			
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 25419177, 25412977 ई-मेल: sbi.05169@sbi.co.in							
परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस							
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस							
आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिकोण/गिरवी/प्रसारित है, का कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत - दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूप की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अधिक धनराशि नीचे वर्णित रूप होगी।							
क्र. सं.	कर्जदार(सी)/गारंटर्स(सी) का नाम एवं पता	नीलामी के अधीन आयात प्रारंभित प्रतिभूति का पता (सम्पत्ति का शीर्षक कब्जा)	आरक्षित मूल्य बचोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) बुद्धि राशि	बकाया राशि/यसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	सम्पत्ति हेतु प्राधिकृत का नाम एवं नं.	ई-नीलामी की तिथि प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	ईएमडी और अनुरोध पत्र, कंसाईती दस्तावेजों, गैर वारंटे, ईएमडी जमा करने का इमान आदि जमा करने की अंतिम तिथि व समय, व्यवहृत कब से और ऑनलाइन माध्यम से RTGS/NEFT (आई सीटी)
1	मैसर्स सोना दाल उद्योग, (प्रोपराइट-श्री नारायण दास गुप्ता), सी-335, डीएसआईआईडीसी, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110040 मैसर्स सोना दाल उद्योग, (प्रोपराइट-श्री नारायण दास गुप्ता), खसरा नं. 36/5, होलम्बी कलां, नई दिल्ली-110062 श्री नारायण दास गुप्ता, (प्रोपराइट-मैसर्स सोना दाल उद्योग) पुत्र श्री ज्ञानी राम, 2074, पुरानी अनाज मंडी, नरेला, नई दिल्ली-110040।	(PROPERTY ID : SBIN8503001915) फैक्ट्री भूमि एवं मकान जोकि सी-335, डीएसआईआईडीसी, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110040 में स्थित, क्षेत्रफल 360 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री नारायण दास गुप्ता के नाम पर है। (लौजहोल्ड ट्रांसफरबल प्रॉपर्टी, एनक्वोसी बैंक के पास है।) (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 406.00 लाख ₹ 40.60 लाख ₹ 1.00 लाख	₹ 7,16,58,507.21 दिनांक 14.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चें इत्यादि	श्री बी आर धीरेन मो. नं. 8790997887	27-04-2022 दोपहर 12.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	दिनांक 26-04-2022 अपराह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले
						सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय: 25-04-2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉह्न 03.00 बजे तक	
2	मैसर्स ईस्टर्न मार्ट ग्लोबल फैशन प्रा. लि., ई-36, भूतल, लाजपत नगर-I, नई दिल्ली-110024	(PROPERTY ID : SBIN200044465421) सांख्यिक बंधक व्यवसायिक स्पेस ई-11/36, लाजपत नगर-I, नई दिल्ली-110024 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुधांशु मोदी पुत्र श्री विजय कुमार मोदी के नाम पर है। क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 291.00 लाख ₹ 29.10 लाख ₹ 1.00 लाख	₹ 4,99,84,370.04 दिनांक 15.04.2021 तक प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चें इत्यादि	श्री बी आर धीरेन मो. नं. 8790997887	27-04-2022 दोपहर 12.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	दिनांक 26-04-2022 अपराह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले
						सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय: 25-04-2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉह्न 03.00 बजे तक	
3	मैसर्स हरिओम एंटरप्राइजेज, श्री हर्ष कुमार (प्रोपराइट), एक्स-166-ए, आबादी प्रताप गली, रघुबर पुरा नं. 1, गांधी नगर, नई दिल्ली-110031 श्री हर्ष कुमार (प्रोपराइट-मैसर्स हरिओम एंटरप्राइजेज) 227 / सी, गली नं. 33, साउथ अनाकरली, सोम बाजार, चंदर नगर, दिल्ली-110051 और दुकान नं. 593, गली चंदेश्वर, कटरा नील, चांदनी चौक, दिल्ली-110006, और 2224 / 5, शोरी क्लॉथ मार्केट, रमा कॉलोनी, रोहतक-124001, हरियाणा, और दुकान नं. 60, भूतल, गीता मार्केट, किला मोहल्ला, रोहतक-124001, हरियाणा और दुकान नं. 61, भूतल, गीता मार्केट, किला मोहल्ला, रोहतक-124001, हरियाणा श्री गुलशन कुमार (गारंटर्स / बंधककर्ता) 227 / सी, साउथ अनाकरली, सोम बाजार, चंदर नगर, दिल्ली-110051, और 2224 / 5, शोरी क्लॉथ मार्केट के पास, रमा कॉलोनी, रोहतक-124001, हरियाणा	(PROPERTY ID : SBIN200012768880) भूतल पर एक रूम, बिना छत के अधिकार के सम्पत्ति नं. 424, बार्ड-I, लूँवा बूनावाथ, चांदनी चौक, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 7 वर्ग मी., और भूतल पर एक हाल, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 28 वर्ग मी., सम्पत्ति नं. 593 में से, बार्ड-I, गली चंदेश्वर, कटरा नील, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री गुलशन कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 69.00 लाख ₹ 6.90 लाख ₹ 1.00 लाख	₹ 3,08,14,269.00 दिनांक 27.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चें इत्यादि	श्री बी आर धीरेन मो. नं. 8790997887	27-04-2022 दोपहर 12.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	दिनांक 26-04-2022 अपराह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले
						सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय: 25-04-2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉह्न 03.00 बजे तक	
4	मैसर्स नेटसिस टेक्नोलॉजीज, 110, एफएफ, एकेडी टॉवर, सेक्टर-14, गुरुग्राम, हरियाणा-122001, श्री जसजीत सिंह जॉली पुत्र श्री अरविंदर सिंह, जॉली मकान नं. 902, 9वीं मंजिल, मालिबू टाउन, सेक्टर-47, गुरुग्राम, हरियाणा-122018, श्रीमती सिमर जॉली पत्नी श्री जसजीत सिंह जॉली मकान नं. 902, 9वीं मंजिल, मालिबू टाउन, सेक्टर-47, गुरुग्राम, हरियाणा-122018, श्रीमती हरविंदर जॉली पत्नी श्री अरविंदर सिंह जॉली, सी-812, सुरांत लोक-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122009	(PROPERTY ID : SBIN200027092580) 1. सांख्यिक बंधक दुकान नं. सी-216, ऊपरी भूतल, सुपर मार्ट व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स-1, ग्राम चकपुर, डीएलएफ सिटी, फेज-IV, गुरुग्राम, हरियाणा, क्षेत्रफल 23.07 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री जसजीत सिंह जॉली पुत्र श्री अरविंदर सिंह जॉली के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) (PROPERTY ID : SBIN200027814878) 2. सांख्यिक बंधक दुकान नं. 110, ऊपरी भूतल, एकेडी टॉवर, सेक्टर-14, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री जसजीत सिंह जॉली पुत्र श्री अरविंदर सिंह जॉली और श्रीमती हरविंदर सिंह जॉली पत्नी श्री अरविंदर सिंह जॉली के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) (PROPERTY ID : SBIN200027006217) 3. सांख्यिक बंधक रिहायशी प्लेट नं. 902, टॉवर 4, 9वां तल, मालिबू कॉलोनिजिमस, मालिबू टाउन, गांव टिकरी फतेहपुर और झारसा तहसील और जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 2430 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री जसजीत सिंह जॉली पुत्र श्री अरविंदर सिंह जॉली और श्रीमती सिमर जॉली पत्नी श्री जसजीत सिंह जॉली के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) (PROPERTY ID : SBIN200027080348) 4. सांख्यिक बंधक रिहायशी प्लेट नं. 811, टॉवर-7, 8वां तल, रॉयल कोर्ट, गांव पीपली तहसील बहरीड़, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री जसजीत सिंह जॉली पुत्र श्री अरविंदर सिंह जॉली के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) (PROPERTY ID : SBIN200027082685) 5. सांख्यिक बंधक रिहायशी प्लेट नं. 604, छठी मंजिल, लोटस टॉवर, टीएचडी गार्डन, 6वां तल, गांव बांडा और ततारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर, मिर्जाडी, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 965.00 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति जसजीत सिंह जॉली पुत्र श्री अरविंदर सिंह जॉली और श्रीमती हरविंदर जॉली पत्नी श्री अरविंदर सिंह जॉली के नाम पर है। (भौतिक कब्जा)	₹ 54,00,000/- ₹ 5,40,000/- ₹ 1,00,000/- ₹ 1,07,00,000/- ₹ 10,70,000/- ₹ 1,00,000/- ₹ 1,37,00,000/- ₹ 13,70,000/- ₹ 1,00,000/- ₹ 13,00,000/- ₹ 1,30,000/- ₹ 1,00,000/- ₹ 19,00,000/- ₹ 1,90,000/- ₹ 1,00,000/-	₹ 6,78,01,802.71 दिनांक 30.11.2020 तक और साथ में संचिदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चें लागत, पं. भार इत्यादि सहित	श्री बी आर धीरेन मो. नं. 8790997887	27-04-2022 दोपहर 12.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	दिनांक 26-04-2022 अपराह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले
						सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय: 25-04-2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉह्न 03.00 बजे तक	

ई-नीलामी हेतु नियम व शर्तें:-

- ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायेगी। यह नीलामी बैंक वेबपोर्टल <https://ibapi.in> & <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जायेगी। ऑनलाइन नीलामी बिडी के अन्तर्गत ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, सामान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज ibapi के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://ibapi.in> & <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध है।
- अयोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रमाण नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाता(ओं) को, ऋणधार, नीलामी में रबी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशि(यों) के संबंध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति(यों) की बिडी बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभावों/ऋणधारों के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी वित्तीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशि(यों) के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी।
- ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटों <https://ibapi.in> पर प्रकाशित की गई हैं।

दिनांक 08-04-2022, स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

